



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

No. AAI/RHB/NR/ATM/NOC/2018/45/209-211
MAHAGUN REAL ESTATE PVT. LTD.
B-66, FIRST FLOOR, VIHAR,
DELHI-110095

Date: 16-02-2018

Valid Upto: 15-02-2026

Notification Certificate for Height Clearance

1. This NOC is issued by Airports Authority of India (AAI) in pursuance of responsibility conferred by and as per the provisions of Govt. of India (Ministry of Civil Aviation) order GSR751 (E) dated 30th Sep. 2015 for Safe and Regular Aircraft Operations:

2. This office has no objection to the construction of the proposed structure as per the following details:

NOC ID :	SAFD/NORTH/B/020718/279251
Applicant Name*	Rampal Singh
Site Address*	C-02 SECTOR 16B, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh
Site Coordinates*	77 26 41.36-28 36 23.54, 77 26 42.49-28 36 26.58, 77 26 44.20-28 36 25.93, 77 26 44.72-28 36 23.37, 77 26 44.79-28 36 22.00, 77 26 47.23-28 36 20.73, 77 26 48.98-28 36 23.49,
Site Elevation in mtrs AMSL as submitted by Applicant*	205.59 M
Permissible Top Elevation in mtrs Above Mean Sea Level (AMSL)	355.59 M

*As provided by applicant

3. This NOC is subject to the terms and conditions as given below:

a. Permissible Top elevation has been issued on the basis of Site coordinates and Site Elevation submitted by Applicant. AAI neither owns the responsibility nor authenticates the correctness of the site coordinates & site elevation provided by the applicant. If at any stage it is established that the actual data is different, this NOC will stand null and void and action will be taken as per law. The office in-charge of the concerned aerodrome may initiate action under the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994"

b. The Structure height (including any superstructure) shall be calculated by subtracting the Site elevation in AMSL from the Permissible Top Elevation in AMSL. i.e. Maximum Structure Height = Permissible Top Elevation minus (-) Site Elevation.

c. The issue of the 'NOC' is further subject to the provisions of Section 9-A of the Indian Aircraft Act, 1934 and any notifications issued there under from time to time including the Aircraft (Demolition of Obstruction caused by Buildings and Trees etc.) Rules, 1994.

क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566

Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpuri, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653568

" हिंदी पत्रों का स्वागत है ।"

(Signature)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA

- d. No radio/TV Antenna, lighting arresters, staircase, Mumtee, Overhead water tank and attachments of fixtures of any kind shall project above the Permissible Top Elevation of 355.59 M, as indicated in para 2.
- e. Only use of oil fired or electric fired furnace is permissible, within 8 KM of the Aerodrome Reference Point.
- f. The certificate is valid for a period of 8 years from the date of its issue. One time revalidation without assessment may be allowed, provided construction work has commenced, subject to the condition that such request shall be made within the validity period of the NOC and the delay is due to circumstances which are beyond the control of the developer.
- g. No light or a combination of lights which by reason of its intensity, configuration or colour may cause confusion with the aeronautical ground lights of the Airport shall be installed at the site at any time, during or after the construction of the building. No activity shall be allowed which may affect the safe operations of flights.
- h. The applicant will not complain/claim compensation against aircraft noise, vibrations, damages etc. caused by aircraft operations at or in the vicinity of the airport.
- i. Day markings & night lighting with secondary power supply shall be provided as per the guidelines specified in chapter 6 and appendix 6 of Civil Aviation Requirement Series 'B' Part I Section 4, available on DGCA India website: www.dgca.nic.in
- j. The applicant is responsible to obtain all other statutory clearances from the concerned authorities including the approval of building plans. This NOC for height clearances is to ensure the safe and regular aircraft operations and shall not be used as document for any other purpose/claim whatsoever, including ownership of land etc.
- k. This NOC has been issued w.r.t. the Civil Airports. Applicant needs to seek separate NOC from Defence, if the site lies within their jurisdiction.
- l. In case of any discrepancy/interpretation of NOC letter, English version shall be valid.
- m. In case of any dispute w.r.t. site elevation and/or AGL height, top elevation in AMSL shall prevail.


Chairman NOC Committee


Region Name: NORTH

Address: General Manager Airports
Authority of India, Regional
Headquarter, Northern Region,
Operational Offices, Gurgaon
Road, New Delhi-110037

Email ID: noc_nr@nai.aero

Contact No: 011-25653551


16/02/18
श्री. एच. रामु. एस. बन्धु
प्रमुख, उत्तरी क्षेत्र, विमानपत्तन प्राधिकरण, दिल्ली
दूरभाष (General Manager (NOC)) कार्यालय
उत्तरी क्षेत्र, विमानपत्तन प्राधिकरण/Operational Offices
पश्चिम बंगाल, गुडगाँव रोड, नई दिल्ली
110037/110037/Gurgaon Road/New Delhi-110037



क्षेत्रीय मुख्यालय उत्तरी क्षेत्र, परिचालन कार्यालय परिसर रंगपुरी, नई दिल्ली - 110037 दूरभाष संख्या - 91-11-25653566
Regional headquarter Northern Region, Operational Offices Complex Rangpur, New Delhi-110 037 Tel: 91-11-25653566

॥ दिनी एवों का इयागन है ॥

F. No.21-135/2017-IA-III
Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(IA.III Section)

Indira Paryavaran Bhawan,
Jor Bagh Road, New Delhi - 3

Date: 10th August, 2017

To,
M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd,
B-66, First Floor Vivek Vihar,
Delhi-110095
Email: pchaudhry@mahagunindia.com

Subject: Proposed 'Mahagun Mall' at Plot No. C-2, Sector-16 B, Greater Noida, Uttar Pradesh by M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd – Environmental Clearance - reg.

Sir,

This has reference to your online proposal No. IAUP/NCP/64034/2017 dated 18th April, 2017 submitted to this Ministry for grant of Environmental Clearance (EC) in terms of the provisions of the Environment Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 under the Environment (Protection) Act, 1986.

2. The proposal for grant of environmental clearance to the project 'Proposed Mahagun Mall' at Plot No. C-2, Sector-16 B, Greater Noida, Uttar Pradesh promoted by M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd was considered by the Expert Appraisal Committee (Infra-2) in its meeting held on 25-27 May, 2017. The details of the project, as per the documents submitted by the project proponent, and also as informed during the above meeting, are under:-

- (i) A Commercial complex "MAHAGUN MALL" is proposed at plot no. C-2, Sector-16B, Greater Noida. The project will be developed by M/s Mahagun Real Estate Private Limited at a total plot area of 18694 Sq. m. The built-up area of the project is 110702.859 sqm. Hence, it falls under category 8 (a) of EIA notification, 2006. The Activity proposed in the project will be Hotel and shops, Anchor, Hyper, Family Entertainment Center, Restaurant, Auditorium.

Particulars	Area details
Plot Area	18694 sqm
Ground coverage (Permissible)	7477.6 sqm (40%)
Ground Coverage (Achieved)	7472.206 sqm (39.97%)
FAR (Permissible)	74776 sqm (4.0)
FAR (Proposed)	69889.32 sqm (3.73)
Permissible services area (15% of FAR)	11216.4 sqm
Proposed service area in sq m	7061.269 sqm
NON-FAR AREA (including basement and service area)	
Lower Ground Floor Area	2039.233 sqm

Upper Basement Area	14880.344 sqm
Lower Basement Area	15295.979 sqm
Service Floor Area	1536.717 sqm
Total Non-FAR	33752.27 sqm
Built-up Area in sq m (FAR+NON-FAR) (A+B)	110702.859 sqm
Green Area	5615.51 sqm (30.04%)

- (ii) The project will be located at Latitude-28°36'23.79"N and Longitude-77°26'44.91"E.
- (iii) The project proponent has submitted EC application to SEIAA/SEAC UP on 04.01.2017. But the case was not considered due to expiry of tenure of SEIAA/SEAC, UP.
- (iv) The ground coverage will be 7472.206 sqm. The FAR achieved of the project will be 69889.32 sqm. There will be 1 Lower Ground Floor and 2 basements of area 2039.233 sqm and 30176.32. Non-FAR area will be 33752.27 sqm. The total built-up area will be 110702.859 sqm. Maximum no. of floors will be 2B+LG+G+15 and maximum height of building will be 82 m. Total population of the complex will be 5810 Nos (Guests in Hotel- 310, Staff- 500, visitors-5000 Nos.).
- (v) The green development area will be kept as 5615.51 sqm (30.04%).
- (vi) The total water requirement will be 497 KLD. The source of water will be Greater Noida Authority.
- (vii) The total waste water generation will be 177 KLD. The waste water shall be treated through Sewage Treatment Plant (MBBR Technology) capacity 320 KLD. 168 KLD treated water will be reused in flushing, gardening, D.G. Cooling, HVAC cooling and miscellaneous purposes. No excess water will be discharged to sewer.
- (viii) 6 No. of RWH pits shall be provided for storm water recharging to ground.
- (ix) The total power requirement will be 5661 KW which will be provided by State Electricity Board (UP). D.G. Set of capacities 5x1500 KVA (2X1500KVA Standby) and 1x750 KVA shall be installed in acoustically enclosure with anti-vibration pads and shall be used during Power failure only. Hence, to avoid the emissions, stack height of 6 m above roof level for D.G. sets of capacities 1500 KVA and 750 KVA shall be installed to reduce the air emissions, meeting all the norms prescribed by CPCB.
- (x) Parking Requirement is 1496 ECS. Parking Proposed is 1509 ECS which shall be provided as Upper Basement, Lower Basement and Open Surface Parking.
- (xi) About 3174 Kg/day Municipal solid waste will be generated from the project. The biodegradable waste of 2222 Kg/ day shall be treated in 2 no. of Organic Waste Converter provide within the project site, recyclable waste generated 952 kg/day will be handed over to authorized recycler.

- (xii) Used Oil of 32 lit/month shall be collected in leak proof containers at isolated place and then it will be given to approved recycler. E- Waste of 2 kg/ month will be collected and given to approved recycler.
- (xiii) Cost of the project is Rs. 408 Crore
- (xiv) Employment potential – Labourers during construction phase 150 no. and about 500 personnel as staff during operation phase.
- (xv) Benefits of the project: – It will increase Infrastructure of the area & will provide better shopping environment and will increase the livelihood of the people. It will provide healthy, green & safe premises for people. People will be away from traffic, pollution and congestion. People have more open and green spaces, bringing them closer to nature. People will have immediate access to shopping and entertainment facilities in a single, spacious and secured area. The benefits relate to the direct employment associated during the construction of the infrastructure in the complex and for staff in the shopping complex. Additional employment opportunities will lead to a rise in the income and improve their standard of living.

3. The EAC, in its meeting held on 25-27 May, 2017, after detailed deliberations on the proposal, has recommended for grant of Environmental Clearance to the project. As per recommendations of the EAC, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change hereby accords Environmental Clearance to the project 'Proposed 'Mahagun Mall' at Plot No. C-2, Sector-16 B, Greater Noida, Uttar Pradesh promoted by M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd, under the provisions of the EIA Notification, 2006 and amendments/circulars issued thereon, and subject to the specific and general conditions as under:-

PART A – SPECIFIC CONDITIONS:

I. Construction Phase

- (i) The project proponent shall obtain all necessary clearance/ permission from all relevant agencies including town planning authority before commencement of work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- (ii) The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
- (iii) Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murrum and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site. Sand, murrum, loose soil, cement, stored on

site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

- (iv) All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- (v) At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- (vi) Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC. Outdoor and common area lighting shall be LED. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- (vii) Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
- (viii) Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- (ix) Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- (x) Sewage shall be treated in the STP based on MBBR technology (with tertiary treatment i.e. Ultra Filtration). The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, horticulture & DG cooling.
- (xi) The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. As proposed, 6 nos. of RWH recharge pits shall be installed for harvesting after filtration as per CGWB guidelines
- (xii) Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials. Wet garbage shall be composted in Organic Waste Converter (OWC). As proposed, 100 m² of space shall be provided for solid waste management within the premises which will include area for

- segregation, composting. The inert waste from group housing project will be sent to dumping site.
- (xiii) Solar based electric power shall be provided to each unit for at least two bulbs/light and one fan. As proposed, central lighting and street lighting shall also be based on solar power.
 - (xiv) A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.
 - (xv) Topsoil should be stripped to a depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.
 - (xvi) Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
 - (xvii) The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
 - (xviii) Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
 - (xix) ~~As proposed, no ground water shall be used during construction/ operation phase of the project.~~
 - (xx) Approval of the CGWA require before any dewatering for basements.
 - (xxi) The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of buildings due to earthquakes, adequacy of firefighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightening etc.
 - (xxii) Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
 - (xxiii) Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
 - (xxiv) An assessment of the cumulative impact of all activities being carried out or proposed to be carried out by the project, shall be made for traffic densities and parking capabilities in a 05 kms. radius from the site. A detailed traffic management and a traffic decongestion plan drawn up through an organization of repute and specializing in Transport Planning shall be implemented to the satisfaction of the State Urban Development and Transport Departments shall also include the consent of all the concerned implementing agencies.
 - (xxv) Ambient noise levels shall conform to residential standards both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be



made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.

- (xxvi) Use of environment friendly materials in bricks, blocks and other construction materials, shall be required for at least 20% of the construction material quantity. These include Fly Ash bricks, hollow bricks, AACs, Fly Ash Lime Gypsum blocks, Compressed earth blocks, and other environment friendly materials. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27th August, 2003 and 25th January, 2016. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- (xxvii) A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
- Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian
 - Traffic calming measures
 - Proper design of entry and exit points.
 - Parking norms as per local regulation

II. Operational Phase

- (i) The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- (ii) For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- (iii) Fresh water requirement from Municipal Water Supply shall not exceed 329 m³/day.
- (iv) The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF&CC along with six monthly Monitoring reports.
- (v) The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
- (vi) No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
- (vii) Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013.

- (viii) The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, and the Plastics Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- (ix) Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heaters shall be used to meet hot water demand, as far as possible.
- (x) Energy conservation measures like installation of CFLs/ LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning. Used CFLs, TFL and LED shall be properly collected and disposed off/sent for recycling as per the prevailing guidelines/rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.
- (xi) A minimum of 1 tree for every 80 sq.mt. of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. Preference should be given to planting native species. Where the trees need to be cut, compensatory plantation in the ratio of 1:3 (i.e. planting of 3 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Area earmarked for greenbelt is 5615.51 sqm (30.04%).
- (xii) The company will draw up and implement a Corporate Social Responsibility plan as per the Company's Act of 2013.
- (xiii) An environmental management plan (EMP) shall be prepared and implemented to ensure compliance with the environmental conditions specified above. A dedicated Environment Monitoring Cell with defined functions and responsibility shall be put in place to implement the EMP. The environmental cell shall ensure that the environment infrastructure like Sewage Treatment Plant, Landscaping, Rain Water Harvesting, Energy efficiency and conservation, water efficiency and conservation, solid waste management, renewable energy etc. are kept operational and meet the required standards. The environmental cell shall also keep the record of environment monitoring and those related to the environment infrastructure.

PART B - GENERAL CONDITIONS

- (i) A copy of the environmental clearance letter shall also be displayed on the website of the concerned State Pollution Control Board. The EC letter shall also be displayed at the Regional Office, District Industries centre and Collector's Office/ Tehsildar's office for 30 days.
- (ii) The funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and shall not be diverted for other purpose. Year-wise expenditure shall be reported to this Ministry and its concerned Regional Office.
- (iii) Officials from the Regional Office of MoEF&CC, Lucknow who would be monitoring the implementation of environmental safeguards should be given full cooperation, facilities and documents/data by the project proponents during their inspection. A complete set of all the documents submitted to MoEF&CC shall be forwarded to the APCCF, Regional Office of MoEF&CC, Lucknow.

[Handwritten signature]

- (iv) In the case of any change(s) in the scope of the project, the project would require a fresh appraisal by this Ministry.
- (v) The Ministry reserves the right to add additional safeguard measures subsequently, if found necessary, and to take action including revoking of the environment clearance under the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, to ensure effective implementation of the suggested safeguard measures in a time bound and satisfactory manner.
- (vi) All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department, the Forest Conservation Act, 1980 and the Wildlife (Protection) Act, 1972 etc. shall be obtained, as applicable by project proponents from the respective competent authorities.
- (vii) These stipulations would be enforced among others under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, the Public Liability (Insurance) Act, 1991 and the EIA Notification, 2006.
- (viii) The project proponent shall advertise in at least two local Newspapers widely circulated in the region, one of which shall be in the vernacular language informing that the project has been accorded Environmental Clearance and copies of clearance letters are available with the State Pollution Control Board and may also be seen on the website of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change at <http://www.envfor.nic.in>. The advertisement shall be made within Seven days from the date of receipt of the Clearance letter and a copy of the same shall be forwarded to the Regional Office of this Ministry at Lucknow.
- (ix) Any appeal against this clearance shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- (x) A copy of the clearance letter shall be sent by the proponent to concerned Panchayat, Zilla Parishad/Municipal Corporation, Urban Local Body and the Local NGO, if any, from whom suggestions/ representations, if any, were received while processing the proposal. The clearance letter shall also be put on the website of the company by the proponent.
- (xi) The proponent shall upload the status of compliance of the stipulated EC conditions, including results of monitored data on their website and shall update the same periodically. It shall simultaneously be sent to the Regional Office of MoEF&CC, the respective Zonal Office of CPCB and the SPCB. The criteria pollutant levels namely; SPM, RSPM, SO₂, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the project shall be monitored and displayed at a convenient location near the main gate of the company in the public domain.
- (xii) The environmental statement for each financial year ending 31st March in Form-V as is mandated to be submitted by the project proponent to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently, shall also be put on the website of the company along with the status of compliance of EC conditions

and shall also be sent to the respective Regional Offices of MoEF&CC by e-mail.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.



(Kushal Vashist)
Director

Copy to:

- 1) The Secretary, Department of Environment, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
- 2) The Addl. Principal Chief Conservator of Forests (C), Ministry of Environment, Forests and Climate Change, Kendriya Bhavan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow-226024.
- 3) The Chairman, Central Pollution Control Board Parivesh Bhavan, CBD-cum-Office Complex, East Arjun Nagar, New Delhi - 110 032.
- 4) Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Building, No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010
- 5) Monitoring Cell, MoEF&CC, Indira Paryavaran Bhavan, New Delhi.
- 6) Guard File/ Record File/ Notice Board.



(Kushal Vashist)
Director



Consent to Establish (No Objection Certificate) Form

Application for Consent To Establish

Note: 1. All enclosures, appendices, projects, plans and scheme to be submitted in triplicate.

2. Incomplete application will be rejected.

3. No work pertaining to site development or construction of industry be undertaken without NOC doing so would be the sole responsibility of the applicant and against public interest.

From ,

M/S Mahagun Real Estate Pvt. Ltd., "Mahagun
Mall" at Plot No. C-2, Sector-16 B, Greater Noida,
Uttar Pradesh
City:
Block: Greater Noida
District: GREATER NOIDA

Dated

07/07/2018

To ,

The Members Secretary,
Uttar Pradesh Pollution Control Board
T.C.12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow(226010).

Sir,

I/We M/s M/S Mahagun Real Estate Pvt. Ltd. (name of proposed unit), whose owner is Mr./Mrs. Peeyush Chaudhry hereby apply for Consent To Establish (NOC) from pollution and Environmental angle for proposed production of None per/day by use of main raw material Raw material will be used for the construction purpose. per/day at proposed land Commercial . The annexure, appendices other particulars and plans in triplicate are attached herewith.

1. I/We further declare that the information furnished in the Annexure, appendices and plans is correct to the best of my/our knowledge.
2. I/We hereby guarantee that quality of final discharge of effluent and emissions will be within the prescribed standards of the Board. The trial production will be started only after implementing and operating the pollution control advices as proposed herein.
3. I/We hereby guarantee that quality of final discharge of effluent and emissions will be within the prescribed standards of the Board. The trial production will be started only after implementing and operating the pollution control advices as proposed herein.
4. I/We undertake that I/we will apply for seeking consent under section 25/26 of Water Act and consent under section-21 of the Air Act at least two months before start of trial and comply with the Water Cess Act-1977.
5. I/We declare that the provisions of these Acts have been known to me/us.
6. I/We accept that the application is for proposals submitted and if the site is not approved then the final decision of Board will be accepted.

Yours faithfully,

Signature

Name of Applicant:- Peeyush Chaudhry
Address of applicant:- B-66, 1st Floor, Vivek Vihar,
Delhi- 110095

Peeyush

(Annexure to NOC Application)

1.	Name and Address, Category & Type of Industry	M/S Mahagun Real Estate Pvt. Ltd. and "Mahagun Mall" at Plot No. C-2, Sector-16 B, Greater Noida, Uttar Pradesh ORANGE Building and construction project more than 20,000 sq. m built up area		
2.	General			
2.1	Name & Address of Applicant	Peeyush Chaudhry & B-66, 1st Floor, Vivek Vihar, Delhi-110095		
2.2	Proposed Location (Attach location map of site Showing of point 2.3)	Not Attached		
2.3	Details of direction and distance of nearest sanctuary, highway railway line, human settlements, river, drain, reserved forests religious places etc form the site (In a 5 km. distance)	Surrounding of Site	Distance (in meters)	Description
		Railway Line	5430	Ghaziabad railway station in NNW
		National Highway	3090	NH-24 in NE
2.4	Present use of land (enclosure certificate) Agricultural/ Residential/ Commercial/ Industrial	Not Attached		
2.5	Details of letter of intent/SSI Registration	U45200DL200BPTC174063 Document-Not Attached		
2.6	Brief process description with flow chart	Enclosed Enclosure No.- Document-Attached		
2.7	List of main products with daily designed capacity	Product Name	Quantity	
		there will be no product manufactur.	0	
2.8	List of bye products with daily designed capacity	By Product Name	Licence Quantity	Installed Quantity
		Not aplicable	0	0
2.9	List of Basic raw material with daily consumption	Raw Materials Name	Quantity	
		It is Commercial Complex. Construction material will be used as a raw material.	1	
2.10	List of other industrial units operated by applicant or its partners.	Not Applicable		
2.11	Capital cost of project	3600.0		
2.12	Expected date of commissioning of plant	August 2018		
3.	Water Pollution			
3.1	Source of Supply of water	Source Type	Source Name	Quantity
		Municipal Supply	Municipal Supply	497.0
3.2	Daily Consumption of water	Source Consumption	Quantity	
		Domestic	497.0	
3.3	Total quantity of liquid effluents discharged per pay.	Generation	Waste Water Generation Quantity	
		Domestic	177.0	

1. Project Report (Attached)
2. EC Granted (Attached)
3. Fire NOC (Attached)
4. Height Clearance from AAI (Attached)
5. RWH Pit details (Attached)
6. Scheme of STP (Attached)
7. Water Management Details (Attached)
8. SWM Details (Attached)
9. APCS (Attached)
10. Project Details (Attached)
11. Covering Letter (Attached)
12. Production Process (Attached)

17/1

Devyen

प्रेषक,

जिला मनोरंजन कर अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण
ग्रेटर नोएडा, जनपद-गौतमबुद्ध नगर।

संख्या- 567 / न०क० / 2017-18

दिनांक: 17 मार्च, 2018

विषय- M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd., द्वारा ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) स्थित प्लॉट नम्बर-सी-2, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) में प्रस्तावित M/s Mahagun Multiplex के नाम से पन्द्रह रक्रीन मल्टीप्लेक्स के निर्माण हेतु स्थल व भवन सम्बन्धी मानचित्रों के परीक्षण व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd., के अधिकृत हस्ताक्षरी श्री प्रदीप कुमार शर्मा द्वारा इस कार्यालय में प्रस्तुत पत्र दिनांक 13.03.2018 के माध्यम से ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) स्थित कौन्शियल प्लॉट नम्बर-सी-2, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) पर M/s Mahagun Multiplex के नाम से पन्द्रह रक्रीन मल्टीप्लेक्स के निर्माण की अनुमति हेतु शासनादेश संख्या-714/11-6-15-एम(72)/2010 दिनांक 03 सितम्बर, 2015 की प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत आवेदन किया गया है। विभागीय निर्देशों के अनुपालन में आवेदक द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम-3(1) के तहत स्थल मानचित्र (Site Plan) तथा नियम-3(2) के अन्तर्गत अंकित भवन मानचित्र (Building Plan With Elevation and Sanitation) भी अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अतः अनुरोध है कि उक्त Drawing के तीन सेट पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से आपको प्रेषित किये जा रहे हैं कि कृपया सन्दर्भित प्रकरण में Master-Plan अथवा Bye-Laws आदि के परिप्रेक्ष्य में अपनी आपत्ति/अनापत्ति सहित Drawing के दो सेट उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

जिला मनोरंजन कर अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

संख्या- / न०क० / 2017-18 / तददिनांकित।

प्रतिलिपि- श्री प्रदीप कुमार शर्मा, अधिकृत हस्ताक्षरी, M/s Mahagun Real Estate Pvt. Ltd., द्वारा प्रस्तावित M/s Mahagun Multiplex कौन्शियल प्लॉट नम्बर-सी-2, सेक्टर-16बी, ग्रेटर नोएडा (वेस्ट) को सूचनाार्थ प्रेषित।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी
गौतमबुद्ध नगर

Pradyuman

20-3-18
GREATER NOIDA INDUSTRIAL DEVELOPMENT AUTHORITY
1, Karambhada Park, 4, Sector 16, Greater Noida, Dist. Greater Noida, U.P. PIN-201315

जामिया मिल्लिया इस्लामिया

(संसदीय अधिनियमानुसार केंद्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025

JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025

सिविल इंजीनियरिंग विभाग

दूरभाष : 26985227, 26981717
एक्सटेंशन : 2310, 2312,
ई-मेल : civil@jmi.ac.in
वेबसाइट : www.jmi.ac.in



Department of Civil Engineering

Ref. No.:2018/4/1-1

Date: 03rd April, 2018

**Consultancy Report on Vetting of Structural Design of Proposed Building
Plan of Commercial at Plot no. C-2, Sector – 16B, Greater Noida**

The Structural design and drawings of **Proposed Building Plan of Commercial at Plot no. C-2, Sector – 16B, Greater Noida** for M/S Mahagun Real Estate Pvt. Ltd designed by **Dr. Vinod Jain M/S Vintech Consultants** has been checked for safety and adequacy in accordance with "Indian Standard Criteria for Earthquake Resistance Design of Structures (Fifth Revision), IS: 1893 (Part-II) – 2002 and the Standard Ductile Detailing of Reinforced concrete Structures subject to seismic forces (IS: 13920-1993)". The design is adequate and safe.

Dr. Mehtab Alam

Dr. MEHTAB ALAM
Dean
Department of Civil Engg.
Faculty of Engg. & Tech.
Jamia Millia Islamia (Central University)
New Delhi-110025

AJ

बेसमेंट का निर्माण में निकले उपखनिज की निकासी हेतु अनुमति-पत्र

मेसर्स महागुप्त रिप्लैट इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड प्लॉट-बी-02 अर्वा जल विद्युत विहार दिल्ली-110086 द्वारा प्लॉट-सी-02, रोड-16 बी। रोडर नोएडा गौतमबुद्धनगर के बेसमेंट एरिया 6000 वर्गमीटर भाग में 13 मीटर गहराई तक बेसमेंट का निर्माण कार्य प्रस्तावित है जिसमें सम्भावित 400 मीटर गहराई तक कुल 24000 घनमीटर उपखनिज का खनन होगा जिसकी वर्तमान बाजार की दर रु० 65/- प्रति घनमीटर की दर से बाजार की दर 15,60,000/- होती है। इस प्रकार कुल घनराशि रु० 15,60,000/- की अधिकतम लागत से लेखा जीपीसी 0853 अर्वा खनन एवं वातुकरण में जमा करवाकर एवं बाजार की दर 10 प्रतिशत "G.B Nagar Distt Mineral Foundation Trust" व बाजार की दर 2 प्रतिशत TCS का भुगतान कर दिया गया है। एतद्वारा जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर के आदेश दिनांक 08.08.2018 द्वारा 03 माह की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों की अधीन खनन एवं उपखनिज हटाने की अनुमति दी जाती है।

भूमि का अर्वा

क्रम सं०	प्लॉट संख्या	बेसमेंट एरिया का विवरण
1	प्लॉट संख्या सी-02, रोड-16 बी। रोडर नोएडा गौतमबुद्धनगर	उक्त प्लॉट का बेसमेंट एरिया 6000 वर्गमीटर भाग में 13 मीटर गहराई तक।

स्थान: गौतमबुद्धनगर

दिनांक 17/08/2018 से 17/11/2018 तक

शर्तें

1. अनुमति धारक, राज्य सरकार को किसी तीसरे पक्ष के हितों की क्षतिपूर्ति करवा लेना और इस प्रकार के हितों को उसके अंतर्गत होने की रकम निश्चित करेगा।
2. अनुमति धारक ऐसी शर्तों से खनिज निकालेगा जिसमें कोई सड़क, सार्वजनिक नर्म भवन भू-गुहादि, सार्वजनिक भू-खण्ड या सार्वजनिक सम्पत्ति तथा पशुओं पर कोई बाधा न पड़े, या उसे क्षति न पहुंचे।
3. अनुमति धारक संघट्ट किये गये सभी खनिजों का लेखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनिधिक प्रतिशतों को ऐसे लेखा का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।
4. उपखनिज का परिवहन प्रपत्र ई-एमएम-11 पर ही किया जावेगा।
5. अनुमति पत्र से निर्धारित मात्रा अथवा अवधि जो भी पूर्व में चर्चित होगी तक ही मरना होगी।
6. प्रत्येक 07 दिन में उपखनिज की निकासी की मात्रा का विवरण कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
7. खनन स्थल से निकलने वाले वाहन सभी को धिरपाल से इकट्ठा ही शहर की अन्दर परिवहन करे।
8. बेसमेंट निर्माण के दौरान निकले उपखनिज की निकासी का कार्य सुव्यवस्थित तथा बेरिगुडिग अर्वा लगाकर इस प्रकार से किया जावेगा कि समीपवर्ती भू-भाग अथवा भवन व वायुमयत मजदूरों को क्षति न पहुंचे और यदि क्षति होती है तो उसका समस्त मुआवजा आवेदक द्वारा देय होगा।
9. यदि उपखनिज की निकासी करते समय अन्य उपखनिज निकलता है तो उसकी मूल्य अथवा प्रमाण से जिलाधिकारी को देनी होगी व अन्य उपखनिज की सप्लटी का आकलन किया जावेगा जो आवेदक को अधिरिक्त बाजार की दर में देना होगा।
10. यदि भवन परिवर्तन का निर्माण हेतु परिवर्तन स्थल से किये गये उपखनिज का प्रयोग परिवर्तन में अथवा परिवर्तन स्थल के बाहर किसी कार्य हेतु किया जाना है तो पर्यावरण निदेशालय, उत्तरांचल के पत्र संख्या 2857/पर्या०/एराटाई0एरसी0/साधारण मिटटी खनन/2012 में दिये गये विन्दु संख्या-5 में दिये गये Safeguards को कड़ाई से अपनाया जाना होगा।
11. अनुमतिधारक द्वारा मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देश का अनुपालन करते हुए एक वन भूमि के अन्तर्गत सभी प्रकार के विभिन्न रूप से मान्यता प्राप्त (स्टेच्यूटेरी रिकग्नाइज्ड) वन (घाटे व अरबित या संरक्षित या किसी अन्य नामों (डिजिनाइटेड) से हों) क्षेत्रों में खनन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा।
12. किसी खनन अधिकारी द्वारा साधारण करके यह सुनिश्चित किया जावेगा कि खनिज ले जाने के लिये जारी किये गये रचना का उपयोग स्वीकृत किये गये क्षेत्र से निकाले गये खनिज के लिए ही प्रयोग किया जा सके है तथा एक प्रकार के वाहन के लिए किये गये प्रपत्रों का दूसरे प्रकार के वाहनों के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। जिस भू-खण्ड हेतु अनुमति दी जा रही है, उस भू-खण्ड से निर्धारित मात्रा में खनिज निकालने हेतु जारी किये गये रचना का प्रयोग किसी और जगह से औद्योगिक रूप से निकाले गये खनिज में किया जाना पाया जाता है तो अतिसम्ब उक्त पर विधिक कार्य करने के लिये व विवाद एराटाई0एरसी0

(Handwritten Signature)

sent letter
for light
Anilson C

किन्ती है इसकी बात प्रविष्टत रायवली जमा करके नियमानुसार उक्त मेसनेज की खनिज की मिकारी करेगा इस अधिकार में किन्ती व्यक्ति अधिकारी/कर्मचारी द्वारा या किन्ती अन्य द्वारा किन्ती तरह का दबाव या धमकाना उगाही या भुगतान, टैक्स जैसी अवैध वस्तुओं की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति/अनुमति धारक द्वारा अपने अधिकारी को तत्काल सूचित किया जावेगा तथा सूचना या शर्तों द्वारा किये जा रहे निरंतर निरीक्षण के अन्तर्गत यह खान अधिकारी द्वारा अधिलक्ष्य प्राथमिकी दर्ज करायी जावेगी। अन्य खान अधिकारी द्वारा उक्त आवश्यक कार्यवाही नहीं की जाती है तो अनुमति धारक द्वारा स्वयं या प्रभारी अधिकारी खान के सम्बन्ध में प्राथमिकी दर्ज करायी जावेगी तथा प्राथमिकी दर्ज कर उपर्युक्त अधिलक्ष्य आवश्यक संज्ञानात्मक कार्यवाही करने की जिम्मेवारी सम्बन्धित शानतदपक्ष की होगी।

15. अनुमति धारक द्वारा सम्बन्धित मूलसूच से मिकारी नयी खनिज का परिवहन जिन शर्तों द्वारा किया जावेगा उक्त विवरण सम्बन्धित मूलसूच स्वामी द्वारा प्रमाणित रजिस्टर में सेन्टेन किया जावेगा जिसका निरीक्षण समय समय पर टारक कोर्स एवं खान अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या 904/एस्टीम-डीपार्ट/2014 दिनांक 25.3.2014 एवं पत्र संख्या 910/एस्टीम-डीपार्ट /2014 दिनांक 29.03.2014 में दिये गये निर्देशों का पालन से अनुपालन सुनिश्चित किया जावेगा।
16. अनुमति धारक का यह मूल दायित्व होगा कि वह अपने द्वारा भोजित किये जाने वाले कर्मचारियों का प्रतिन सांख्यिक करवावेगा तथा किन्ती भी अपराधिक व्यक्ति को इस कार्य में योगित नहीं करेगा।
17. अनुमति धारक का यह भी दायित्व होगा कि यदि उनके द्वारा भोजित कोई कर्मचारी कोई चुरे या शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, तब ऐसे कर्मचारी का कृप्य टेलेफोन का कृप्य संख्या जावेगा और अनुमति पत्र की शर्तों के उल्लंघन के अन्तर्गत उनको विवेक नियमानुसार उक्त शर्तों का उल्लंघन से सम्बन्धित प्रचलित विधियों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
18. यदि अनुमति धारक अनुमति पत्र में दी गई शर्तों के अनुरूप कार्य न करके, शर्तों का उल्लंघन करता है तो अनुमति पत्र निरस्त कर दिया जावेगा और जमा रायवली राज्य सरकार के पास में जमा कर ली जावेगी।
19. उपखनिजों के परिवहन का ठीक लेखा-जोख (यथा खान संख्या, उपखनिज का नाम, मात्रा एवं गन्नाय खान) खान स्थल पर पंजिका (रजिस्टर) में दर्ज किया जावेगा तथा आकस्मिक निरीक्षण के समय खान स्थल पर धारक द्वारा जीव हेतु उपलब्ध कराया जावे।



खान अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

कार्यालय जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर।
पत्रांक-1720/खनिज लिपिक/गौतमबुद्धनगर/2017 दिनांक-15/5/2018
प्रतिरिपि

1. निदेशक, मूलसूच एवं शानिकर्मी निदेशालय, उ०प्र०, खनिज मन्त्र, लखनऊ।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गौतमबुद्धनगर।
3. प्रभारी अधिकारी खनिज को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. उप जिलाधिकारी दायरी/सदर/जेयर क्षेत्राधिकारी जिला गौतमबुद्धनगर को इस अनुमति के साथ प्रेषित कि जिलाधिकारी महोदय के पत्रांक-904/एस्टीम/दिनांक-25.03.2014 द्वारा गठित टारक कोर्स के साथ निरीक्षण कर शर्तों/प्रतिबन्धों का अन्तर्गत अनुपालन सुनिश्चित करे।
5. जिला खान अधिकारी गौतमबुद्धनगर को इस आशय से प्रेषित कि अनुमति पत्र में स्वीकृत के दौरान समय अनुराल पर निरीक्षण कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करे।
6. संबंधित शानतदपक्ष, जनपद गौतमबुद्धनगर।
7. मेसनेज महापुन रिवाल स्टेट प्रांसि० हेतु अनुपालनार्थ।

खान अधिकारी
गौतमबुद्धनगर।

Handwritten signature in blue ink.

कार्यालय

संयुक्त निदेशक

फायर सर्विस

मुख्यालय

उ०प्र० लखनऊ।

फर्मांक: 55/जे०डी०/फा०र०/लखनऊ-18(गौतम०)/102.

दिनांक: लखनऊ मई 28 2018.

प्रारूप-घ

औपचारिक (provisional) अनापत्ति प्रमाण पत्र

सूआईसी संख्या-2018/45264/जीबीएन/गौतमबुद्धनगर/584/जे०डी०

दिनांक-21-05-2018

प्रमाणित किया जाता है कि (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) मैसर्स महागुन रियल इस्टेट प्रा०लि० द्वारा प्लॉट न० सी०-02, सेक्टर-16बी०, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ०प्र० जिसमें प्रस्तावित तलों की संख्या-मूलतः+23 तल एवं बेसमेन्ट की संख्या-03 है, जिसकी कुँचाई-110.00 मीटर तथा प्लॉट एरिया-18894.00 वर्ग मी० है। भवन का अधिभोग (भवन स्वामी/अधिभोगी अथवा कंपनी का नाम) मैसर्स महागुन रियल इस्टेट प्रा०लि० द्वारा किया जायेगा। इनके द्वारा अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के समस्त प्राविधानों का समायोजन एन०बी०सी० एवं तत्सम्बन्धी भारतीय मानक श्रृंखला के आई०एस० मानकों की संस्तुतियों के अनुरूप किया गया है। इस भवन को प्रांतीयजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन०बी०सी० की अधिभोग श्रेणी) एसेम्बली भवन (गैल/मस्टीफ्लैक्स/होटल) मिक्स आक्यूपेन्सी श्रेणी डी०-06 के अन्तर्गत इस शर्त के साथ के साथ दिया जा रहा है कि प्रस्तावित भवन में सभी मानकों का अनुपालन किया जायेगा तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा भवन के अधिभोग से पूर्व अग्नि एवं जीव रक्षा प्रमाण पत्र (fire & Life safety certificate) प्राप्त किया जायेगा।

संलग्नक: मानचित्र।

(अपरिचय कर्ता)
संयुक्त निदेशक, फायर सर्विस
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि-निम्नांकित को शासनादेश संख्या: 1765/उ-पु-08-2017-905(34)/2016 गृह (पुलिस) अनुभाग-8 दिनांक: 16-02-2018

के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-जिलाधिकारी गौतमबुद्धनगर को सादर सूचनार्थ।

2-महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन) ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण, जनपद गौतमबुद्धनगर।

3-निदेशक, फायर सर्विस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ।

4-उपनिदेशक, फायर सर्विस मेरठ/सहारनपुर परिक्षेत्र।

5-मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं 04 प्रतिियों में इस आशय से प्रेषित की आवेदक को अपने स्तर से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

6-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-03, ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्धनगर को उपरोक्तानुसार अनुपालनार्थ एवं अभिलेखीकरण हेतु।

7-मैसर्स महागुन रियल इस्टेट प्रा०लि० द्वारा प्लॉट न० सी०-02, सेक्टर-16बी०, ग्रेटर नौएडा जनपद गौतमबुद्धनगर उ०प्र० उ०प्र० को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।

Deujan